

JEE Advanced 2022

Question Paper with Answer

28th August 2022

PAPER – 2 [CHEMISTRY]

Umeed
RANK KI HO
ya Selection ki,
Jeet Nischit hai

MOTION[®]



Umeed Rank Ki Ho Ya Selection Ki, JEET NISCHIT HAI!

MOST PROMISING RANKS
PRODUCED BY MOTION FACULTIES

NATION'S BEST SELECTION
PERCENTAGE (%) RATIO

NEET / AAIMS

AIR-1 TO 10
25 TIMES

AIR-11 TO 25
37 TIMES

AIR-26 TO 50
43 TIMES

AIR-51 TO 100
78 TIMES

JEE MAIN+ADVANCED

AIR-1 TO 10
8 TIMES

AIR-11 TO 25
6 TIMES

AIR-26 TO 50
19 TIMES

AIR-51 TO 100
31 TIMES



NITIN VIJAY (NV Sir)
Founder & CEO

STUDENT QUALIFIED IN NEET

2021	3276 / 3411 = 93.12%
2020	2663 / 2843 = 93.66%
2019	2041 / 2212 = 92.27%

STUDENT QUALIFIED IN JEE ADVANCED

2021	1256 / 2994 = 41.95%
2020	994 / 2538 = 39.16%
2019	769 / 2105 = 36.53%

STUDENT QUALIFIED IN JEE MAIN

2022	4818 / 6653 = 72.41%
2021	2994 / 4087 = 73.25%
2020	2538 / 3554 = 71.44%

MOTION[®]



1800 212 1799

Corporate Office : 394, Rajeev Gandhi Nagar, Kota (Raj.) | www.motion.ac.in

JEE Campus (At Kota) : "Drona" E-5-II, Road Number 1, Industrial Area | NEET Campus (At Kota) : "Daksh" 638, Near CAD Circle, Dadabari

SECTION 1 (Maximum marks: 24)

- This section contains **EIGHT (08)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from **0 TO 9, BOTH INCLUSIVE**.
- For each question, enter the correct integer corresponding to the answer using the mouse and the onscreen virtual numeric keypad in the place designated to enter the answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +3 If **ONLY** the correct integer is entered;
Zero Marks : 0 If the question is unanswered;
Negative Marks : -1 In all other cases.

1. Concentration of H_2SO_4 and Na_2SO_4 in a solution is 1 M and 1.8×10^{-2} M, respectively. Molar solubility of PbSO_4 in the same solution is $X \times 10^{-Y}$ M (expressed in scientific notation). The value of Y is _____.
 [Given: Solubility product of PbSO_4 (K_{sp}) = 1.6×10^{-8} . For H_2SO_4 , K_{a1} is very large and $K_{a2} = 1.2 \times 10^{-2}$]

Ans. 6 or 7

2. An aqueous solution is prepared by dissolving 0.1 mol of an ionic salt in 1.8 kg of water at 35 °C. The salt remains 90% dissociated in the solution. The vapour pressure of the solution is 59.724 mm of Hg. Vapor pressure of water at 35 °C is 60.000 mm of Hg. The number of ions present per formula unit of the ionic salt is _____.


Ans. 5

3. Consider the strong electrolytes Z_mX_n , U_pY_q and V_nX_n . Limiting molar conductivity (Λ^0) of U_pY_q and V_nX_n are 250 and 440 $\text{S cm}^2 \text{mol}^{-1}$, respectively. The value of $(m + n + p)$ is _____.
 Given:

Ion	Z^{n+}	U^{p+}	V^{n+}	X^{m-}	Y^{m-}
$\lambda^0 (\text{S cm}^2 \text{mol}^{-1})$	50.0	25.0	100.0	80.0	100.0

λ^0 is the limiting molar conductivity of ions

The plot of molar conductivity (Λ) of Z_mX_n vs $c^{1/2}$ is given below.



Ans. 7


4. The reaction of Xe and O_2F_2 gives a Xe compound **P**. The number of moles of HF produced by the complete hydrolysis of 1 mol of **P** is _____.

Ans. 4

5. Thermal decomposition of $AgNO_3$ produces two paramagnetic gases. The total number of electrons present in the antibonding molecular orbitals of the gas that has the higher number of unpaired electrons is _____.


Ans. 6

6. The number of isomeric tetraenes (**NOT** containing sp -hybridized carbon atoms) that can be formed from the following reaction sequence is _____.




Ans. 2

7. The number of $-CH_2-$ (methylene) groups in the product formed from the following reaction sequence is _____.



Ans. 0

8. The total number of chiral molecules formed from one molecule of **P** on complete ozonolysis (O_3 , Zn/ H_2O) is _____.



Ans. 2

SECTION 2 (Maximum marks: 24)

- This section contains SIX (06) questions.
- Each question has FOUR options (A), (B), (C) and (D). **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s).
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 **ONLY** if (all) the correct option(s) is (are) chosen:

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen;

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen, both of which are correct;

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option;

Zero Marks : 0 If unanswered;

Negative Marks : -2 In all other cases.

9. To check the principle of multiple proportions, a series of pure binary compounds (P_mQ_n) were analyzed and their composition is tabulated below. The correct option(s) is(are)

Compound	Weight % of P	Weight % of Q
1	50	50
2	44.4	55.6
3	40	60

(A) If empirical formula of compound 3 is P_3Q_4 , then the empirical formula of compound 2 is P_3Q_5 .

(B) If empirical formula of compound 3 is P_3Q_2 and atomic weight of element P is 20, then the atomic weight of Q is 45.

(C) If empirical formula of compound 2 is PQ, then the empirical formula of the compound 1 is P_5Q_4 .

(D) If atomic weight of P and Q are 70 and 35, respectively, then the empirical formula of compound 1 is P_2Q .

Ans. **BC**

10. The correct option(s) about entropy (S) is(are)

[R = gas constant, F = Faraday constant, T = Temperature]

(A) For the reaction, $M(s) + 2H^+(aq) \rightarrow H_2(g) + M^{2+}(aq)$, if $\frac{dE_{\text{cell}}}{dT} = \frac{R}{F}$, then the entropy change of the reaction is R (assume that entropy and internal energy changes are temperature independent).

(B) The cell reaction, $Pt(s)|H_2(g, 1\text{bar})|H^+(aq, 0.01M)||H^+(aq, 0.1M)|H_2(g, 1\text{bar})|Pt(s)$, is an entropy driven process.

(C) For racemization of an optically active compound, $\Delta S > 0$.

(D) $\Delta S > 0$, for $[Ni(H_2O)_6]^{2+} + 3en \rightarrow [Ni(en)_3]^{2+} + 6H_2O$ (where en = ethylenediamine).

Ans. **BCD**

11. The compound(s) which react(s) with NH_3 to give boron nitride (BN) is(are)

- (A) B (B) B_2H_6 (C) B_2O_3 (D) HBF_4


Ans. **ABC**

12. The correct option(s) related to the extraction of iron from its ore in the blast furnace operating in the temperature range 900 – 1500 K is(are)

- (A) Limestone is used to remove silicate impurity.
 (B) Pig iron obtained from blast furnace contains about 4% carbon.
 (C) Coke (C) converts CO_2 to CO.
 (D) Exhaust gases consist of NO_2 and CO.

Ans. **ABC**

13. Considering the following reaction sequence, the correct statement(s) is(are)



- (A) Compounds **P** and **Q** are carboxylic acids.
 (B) Compounds **S** decolorizes bromine water.
 (C) Compounds **P** and **S** react with hydroxylamine to give the corresponding oximes.
 (D) compound **R** reacts with dialkylcadmium to give the corresponding tertiary alcohol.

Ans. **AC**

14. Among the following, the correct statement(s) about polymers is(are)

- (A) The polymerization of chloroprene gives natural rubber.
 (B) Teflon is prepared from tetrafluoroethene by heating it with persulphate catalyst at high pressure.
 (C) PVC are thermoplastic plymers.
 (D) Ethene at 350–570 K temperature and 1000 – 2000 atm pressure in the presenece of a peroxide initiator yields high density polythene.

Ans. **BC**

SECTION 3 (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has FOUR options (A), (B), (C) and (D). ONLY ONE of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
 Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen;
 Zero Marks : + 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered);
 Negative Marks : -1 In all other cases.

15. Atom X occupies the fcc lattice sites as well alternate tetrahedral voids of the same lattice. The packing efficiency (in %) of the resultant solid is closest to
 (A) 25 (B) 35 (C) 55 (D) 75

Ans. B


16. The reaction of HClO_3 with HCl gives a paramagnetic gas, which upon reaction with O_3 produces
 (A) Cl_2O (B) ClO_2 (C) Cl_2O_6 (D) Cl_2O_7


Ans. C

17. The reaction of $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ and NaCl in water produces a precipitate that dissolves upon the addition of HCl of appropriate concentration. The dissolution of the precipitate is due to the formation of
 (A) PbCl_2 (B) PbCl_4 (C) $[\text{PbCl}_4]^{2-}$ (D) $[\text{PbCl}_6]^{2-}$

Ans. C

18. Treatment of D-glucose with aqueous NaOH results in a mixture of monosaccharides, which are





Ans. C

जेईई और नीट की तैयारी के लिए 1.90 लाख स्टूडेंट्स पहुंचें, अभी और आने की उम्मीद

कोटा क्लासरूम कोचिंग का फ्रेज: कोविड के बाद फिर लौटी शिक्षा नगरी की रौनक



कोटा

शहर के लिए अच्छी खबर है। दो साल कोविड की मार झेलने के बाद कोटा कोचिंग में एक बार फिर रौनक लौट आई है। देशभर से स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग व मेडिकल में प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए एडमिशन ले रहे हैं। इससे हॉस्टल और मेस संभालकर से लें कर डेयरी, फ्रूट-जूस, चाय-कॉफी थोड़ी बाले स्टेशनरी और ऑटो चालक तक, सभी खुश हैं। अच्छे एडमिशन से कोटा का लोकल बिजनेस बढ़ेगा। पर अखिल कोचिंग के लिए आने वाले बच्चों का पूरे साल का खर्चा करीब 20 लाख से तीन लाख खर्च होता है। यह राशि हॉस्टल, कोचिंग, मेस और पीजी मालिक से लेकर फुटकर

ध्यापारियों और स्थानीय दुकानदारों तक पहुंचती है। एक अनुमान के मुताबिक करीब दो लाख लोग कोटा कोचिंग से इलाक अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। इनमें कोचिंग, मेस, हॉस्टल और पीजी में काम करने वाले लोग शामिल हैं। इससे अलावा स्टेशनरी की दुकान से लें कर लॉन्ड्री, फुटकर खाने-पीने की दुकानों और रेंटरोट और रॉजल भी हैं। कोविड-19 के चलते यह सभी लोकल संकट में थे। रिफॉर्ड आवाक की समाप्ति बोर्ड परीक्षाओं की समाप्ति के साथ ही कई राज्यों के स्टूडेंट्स ने अखिल में ही कोटा आकर एडमिशन लेना शुरू कर

दिया था। इन दिनों देशभर से आने वाले स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में प्रवेश ले रहे हैं। ओरिएंटेशन के बाद कक्षा 10-11 में जाने वाले इन स्टूडेंट्स की पहुंच शुरू भी हो गई है। गत माह मोशन एजुकेशन के विविध परिसर में जेईई और नीट की तैयारी के लिए एक दर्जन से ज्यादा ओरिएंटेशन सेशन में हजारों स्टूडेंट्स और पेरेंट्स शामिल हुए।

आने वाले समय में भी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के आने के आसार हैं। रिफॉर्ड विद्यार्थियों की रिफॉर्ड आवाक की समाप्ति के बाद कोटा शहर में करीब दो से सवा दो

लाख विद्यार्थियों के लिए होस्टल पीजी रूम हैं। नए बच्चों की बात करें तो अभी तक 1.90 लाख से अधिक बच्चे आ चुके हैं। ये हॉस्टल में रह रहे हैं। अभी बच्चे आते रहेंगे और इस तरह कोटा के सभी हॉस्टल फुल हो जाएंगे।

ज्यादातर विद्यार्थी हिन्दी पढ़ी के: वैसे तो देश के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से स्टूडेंट कोटा पहुंचते हैं लेकिन ज्यादातर विद्यार्थी हिन्दी पढ़ी के 6 राज्यों से ही होते हैं।

वर्ष 2019 में विहार 32 हजार, उत्तर प्रदेश 28 हजार, राजस्थान से 27 हजार विद्यार्थी थे इस केंद्र के अलावा 1 म. 6 प्र. 2, 1, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र से 27 हजार, पंजाब, हरियाणा और हिमाचलप्रदेश से 6000 और पश्चिम बंगाल और ओडिशा से 7500 छात्र-छात्राएं कोचिंग के लिए कोटा पहुंचे।

जानिए, क्यों उमड़ रहा स्टूडेंट्स का रैला

कोटा

सफलता कोटा की फिजा में ही पूरी हुई है। यह कविल फंक्टी ही नहीं, जहीन विद्यार्थियों की मीजुदगी और कोचिंग, हॉस्टल, सुरक्षात वातावरण और अन्य सुविधाओं के कारण सफलता के समाप्त हो गए हैं। सीबीएसई के भी लिए खास इको सिस्टम है।

देश में सभी स्टेट बोर्ड एग्जाम सुविधाओं के कारण सफलता के लिए खास इको सिस्टम है। देश में सभी स्टेट बोर्ड एग्जाम सुविधाओं के कारण सफलता के लिए खास इको सिस्टम है।

देश में सभी स्टेट बोर्ड एग्जाम सुविधाओं के कारण सफलता के लिए खास इको सिस्टम है। देश में सभी स्टेट बोर्ड एग्जाम सुविधाओं के कारण सफलता के लिए खास इको सिस्टम है।

कोटा कोचिंग: एक नजर
2 लाख लोगों की आजीविका निर्माता है कोटा में कोचिंग पर 1800 मेस और 3400 हॉस्टल हैं।

फिचले छह साल में कोटा में कोचिंग स्टूडेंट
विद्यार्थियों की संख्या
2017 01.40 लाख
2018 01.50 लाख
2019 01.65 लाख
2020 35.00 हजार
2021 60.00 हजार
2022 अब तक 1.90 (दो लाख से अधिक विद्यार्थियों की समाप्ति)

आपके संकल्प को सफलता में बदलने को तैयार हैं हम

कोटा

आपके विरासत में मोशन को कोटा में जेईई, नीट और ओएम्पाइड की तैयारी के लिए सबसे तेजी से बढ़ते वाला और सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान बना दिया है। मोशन हमारे लिए किसी हरोटोट्टु या संस्था का नाम नहीं है। हमारे लिए यह मिशन, जिम्मेदारी और संकल्प है। संकल्प शिवा की योजना है। यह राशि हॉस्टल, कोचिंग, मेस और पीजी मालिक से लेकर फुटकर



हमारे लिए हर विद्यार्थी खास है। हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों को अच्छे से अच्छा माहौल मिले और वे अपने मकसद में कामयाब हों। इसलिए हम हमेशा उनका खास ध्यान रखते हैं, उनके सपने से लेकर सफलता तक के सफर में साथ रहते हैं। उनकी हर समस्या हमारी समस्या होती है और हम उनके समाधान के लिए हर समय तैयार रहते हैं। लोकसाजन में जब

सब कुछ धम धम गा तो भी हमने विद्यार्थियों का पूरा ध्यान रखा, हर मदद की। पढ़ाई का नुस्खाना नहीं के इसलिए डिजिटल क्लास शुरू कर विद्यार्थियों के लिए घर बैठे फेकटलीज के मार्गदर्शन की व्यवस्था की। जिन विद्यार्थियों ने कोविड में अपना सब कुछ खो दिया, मोशन उनका भी समर्थन बना। विद्यार्थियों और अभिभावकों का विरासत ही हमारी पूंजी है। मेहनत और लगन के अलावा

विश्वास से पहले हमारे लिए सेवा का जज्बा है। हम डॉक्टर इजीनियर ही नहीं, देश के कर्माग तैयार करते हैं जो देश को इन दिनों कोटा कोचिंग में ही टैम के रूप में हमने अपने लक्ष्य तक कर रहे हैं, उन पर जोश और जुनून के साथ काम कर रहे हैं और नए आगम स्थापित कर रहे हैं। विद्यार्थियों की कामयाबी में उनकी मदद और लगन के अलावा

विश्वास का साथ, माता पिता और परे परिवार का समर्थन, शहर का सहयोग शामिल होता है। लोगों का हर साथ ही हमें मजबूत बनाता है। इन दिनों कोटा कोचिंग में एडमिशन का शिलसिला चल रहा है। यह नई शुरुआत का समय है और नया सत्र, नए संकल्प, लक्ष्य और नई उम्मीद लेकर आया है। कोटा आने वाले बच्चों से न कहना चाहिए कि पढ़ाई करना आपका

धर्म है। कोटा में आप जिस लक्ष्य के साथ आए हैं उसे हमेशा याद रखें। दूसरे आठों आने संकल्प को पूरा करने की कानू मिलेगी। अपने संकल्प और सपने को पूरा करने के लिए आपको तैयार होना एक करण होगा। आप प्रयास करते रहें, मंजिल जरूर मिलेगी। आपकी उपलब्धियों में ही हमारी सफलता है। न आपकी विरासत विलासत है कि आपको राह में आने

वाणी चुनौतियों का सामना करने के लिए हम तैयार हैं और सर्किंग के मामले में मोशन में आपका समय को पूरा करने की कानू मिलेगी। अपने संकल्प और सपने को पूरा करने के लिए आपको तैयार होना एक करण होगा। आप प्रयास करते रहें, मंजिल जरूर मिलेगी। आपकी उपलब्धियों में ही हमारी सफलता है। न आपकी विरासत विलासत है कि आपको राह में आने

15 साल पहले एक कमरे की फिजिक्स क्लास से आगाज, हजारों जुड़े हैं आज

सक्सेस स्टोरी : सफलता के सपने साकार होते हैं यहां

कोटा

मोशन एजुकेशन का सफर 7 दिसंबर 2007 को 10 हजार रुपए और एक कमरे की फिजिक्स क्लास के साथ शुरू हुआ था। 15 साल में आज देशभर में मोशन के 55 से अधिक सेंटर कार्य कर रहे हैं। 2022-23 में 100 केंद्र शुरू करने की योजना है। मोशन परिवार 1100 कर्मचारियों, 500 से अधिक विद्यार्थियों का हो गया और हम 50 हजार से अधिक विद्यार्थियों की सफलता गारंटी ला चुके हैं। नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आईआईटीयन, डॉक्टरेट, और सर्वांगीण विकास के लिए

प्रोफेशनल फेकटलीज के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। हमारे इस लक्ष्य कि शुरुआत केवल आईआईटी डिजिशन के साहस हुई थी किन्तु आज मोशन एजुकेशन मेडिकल, इंजीनियरिंग के साथ-साथ एनटीसी और ओएम्पाइड की क्लास शुरू करने के लिए आगे बढ़ा है। प्रेरणा, बुद्धि, संकल्प, ईमानदारी और सामाजिक दायित्व जैसे मूल्य मोशन को दूसरों से अलग बनाते हैं। हमारे यहां विद्यार्थियों के शैक्षणिक, नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सर्वांगीण विकास के लिए

लगातार प्रयास किए जाते हैं। यहां प्रदान किए जाने वाले क्लासरूम और ऑनलाइन कोचिंग के राइट मिक्सचर वाले अकेडमिक सपोर्ट और पर्सनल केयरिंग के माध्यम से स्टूडेंट्स का डॉक्टर और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में डीम करियर तो बनाते ही हैं, इंजिन और इंसाइनिया के प्रति उनकी जिम्मेदारी निभाने की प्रेरणा भी पाते हैं। रिजल्ट बोलते हैं जिनसे स्टूडेंट्स मोशन एजुकेशन में एडमिशन लेते हैं, उसके मुकाबले नीट, आईआईटी, जेईई में सफलता पाने वाले कुल विद्यार्थियों के मुकाबले सक्सेस की



अं कलें रबर, अं थिका। पुर, औरंगाबाद, मुज, मिलाई, भुवनेश्वर, चेन्नई, चंद्रपुर, कोयंबटूर, धौलपुर, दुर्ग, दुर्गापुर, मुजबटूर, म्यालियर, हिमनगर, हमीरपुर, हावड़ा, हैबराबाद, जगदलपुर, जम्मू, जयपुर, जुहू, मुंबई, कटुआ, कोल्हापुर, कोलकाता, कोरबा, लखनऊ, लाहौर, मालेगांव, मेहसाणा, मुजफ्फरपुर, नडियाद, नागपुर, नासिक, पालनपुर, पाटन, गुजरात, पद्मकोट्ट, पुलवामा, रायपुर, रांची, रौत, राउरकेला, श्रीनगर, सुंदरगढ़, तिरु, बडोदरा शामिल हैं।

बच्चों के लिए पॉजिटिव माहौल
मेरा बेटा इंजीनियर बनना चाहता है। उसको लेकर यहां आया हूँ। कोटा याकई शिक्षा की कानी है। इसमें पूरा देखा समझा हुआ है। यहां बारी और स्टूडेंट, हॉस्टल, कोचिंग का माहौल नजर आता है। लगता है यह शहर स्टूडेंट के सपनों को साकार करने के लिए ही बना है। कोटा कोचिंग की अच्छी बात है कि यहां पेरेंट्स को स्टूडेंट्स की पढ़ाई और उपस्थिति के बारे में लगातार अपडेट देना जाता है।

मनप्रति सिंह, जालंधर, पंजाब
ऑनलाइन पढ़ाई से बोर हो गए थे बच्चे कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ना बच्चों के लिए बोरिंग रहा। जब फेस टू फेस बच्चा ऑफलाइन क्लास रूम में पढ़ता है, तब बच्चे का एनर्जी लेवल काफी हाई होता है। क्विज, प्रश्नोत्तर, गेम भी यहां होता है। उम्मीद है कि कोटा में जिस तरह से पहले पढ़ाई होती रही है, इस बार भी अच्छी पढ़ाई यहां पर होगी। सभी कोटावासी बच्चों का यहां पर अच्छा ध्यान रखेंगे।

खमन कोसिया, गोलाघाट, असम

अपनी तैयारी को दीजिए, एक नया आयाम!

क्योंकि शुरु हो गया है

YouTube **अभ्यास** FREE BATCH

Subscribe MOTION YouTube JEE

NV Sir को बिजनेस वर्ल्ड डिसरफ्ट 40 अंडर 40 Award

शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए किया सम्मान

कोटा

मोशन एजुकेशन के फाउंडर और सीईओ नितिन बिजय को जूनी-मांजी फिज ने सा पत्रिका-बिजनेस वर्ल्ड की ओर से-बीडब्ल्यू डिसरफ्ट 40 अंडर 40- अवार्ड से सम्मानित किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया।



के रूप में पहचाना जाता है। कभी सोचा नहीं था कि एक उद्योगी के रूप में अवार्ड मिलेगा। उन्होंने अपनी उपलब्धि गाता -रिवा, स म र द्या। का। स मा ए 11 न पनी, मोशन टीम और विद्यार्थियों को सम्मानित की। इस मौके पर बिजय ने कहा कि हम शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और लागत कम करने के विधान पर कार्य कर रहे हैं। क्विज एजुकेशन ऑफ एजुकेशन की ओर जा रहे हैं। उन्होंने कहा- हेल्थ केयर के क्षेत्र में जब भी पैरेंट इतजार-ए-सोल्यूशन में है, क्योंकि कोटा अब मोशन में है।

और हर बच्चा अलग होता है लेकिन बच्चों को एक जैसे ही शिक्षा दी जाती है जबकि उनकी क्षमता अलग-अलग की होती है। गौरवलेख है कि सम्मान समारोह का आयोजन नई दिल्ली आधारित जूनी-मांजी बिजनेस पत्रिका बिजनेस वर्ल्ड की ओर से किया गया था। इस पत्रिका का प्रकाशन 1993 में टेडीग्रफ की प्रकाशक आनंद बाजार पत्रिका ने शुरू किया था। अनुक्रम बत्रा इसके लिए यह क्यू आर कोड स्कैन करें।



मोशन एजुकेशन के फाउंडर - नीईओ नितिन बिजय को बिजनेस वर्ल्ड की ओर से बेस्ट इट्रप्राय्जर अवार्ड-40 अंडर 40 के समारोह का जीडब्ल्यू देखने के लिए यह क्यू आर कोड स्कैन करें।



कोटा अब मोशन में है नॉलेज के ऑशन में है...


स्टेशन पर अब ऑटो वाले बैगा कोचिस के डायरेक्शन में है, राजीव गांधी नगर हो जा जवाहर नगर, सारे होस्टल, पीजी भी फूल ऑन टशन में है, क्योंकि कोटा अब मोशन में है।

विद्यार्थियों की चहक और गरमा-गरम कमीशियों की महक के साथ पोहें, पेटीज और मोगोस भी फिर से सडूलेशन में है क्योंकि कोटा अब मोशन में है।

क्लास में फिर बच्चों की खिलखिलाहट सुनकर हर टीचर के चेहरे पर मुस्कान है, रडूडेट्स भी अपनी आंखों में

जेईई-नीट क्रेक करने के सपने लिए क्लासरूम में पढ़ रहे पूरे डिबोशन में है, क्योंकि कोटा अब मोशन में है। अब क्लासरूम से कैंपस तक हर जगह है शोर, एनबी सर कोई हंसगुल्ला छोड़े तो जोर से आवाज आती है वनस मोर, डाउट काउंटर के बाहर स्टूडेंट्स भी अपने हर डाउट को नोट किए इतजार-ए-सोल्यूशन में है, क्योंकि कोटा अब मोशन में है।

स्टेशनरी पर सिर्फ आरडी शर्मा, एचसी वर्मा सुनाई देता है, हर गली, कॉलोनी में बच्चों का जमावड़ा दिखाई देता है,



मोशन प्रयास के अंतर्गत विद्यार्थियों को क्या-क्या सुविधाएँ मिलेंगी?

मोशन प्रयास के अंतर्गत कोचिंग, हॉस्टल, भोजन एवं स्कूल की सुविधा दी जाएगी जिससे परिजन इन सभी आवश्यकताओं की उपलब्धता एवं गुणवत्ता को लेकर निश्चित हो सकें एवं विद्यार्थी अपना सम्पूर्ण ध्यान प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगा सकें।

मोशन प्रयास में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री किस भाषा में प्राप्त होगी?

मोशन प्रयास के अंतर्गत विद्यार्थियों की सुविधानुसार सम्पूर्ण पाठ्य सामग्री (स्टडी मटेरियल), टेस्ट सीरीज, डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस शीट इत्यादि हिंदी माध्यम में उपलब्ध होगी जिससे उन्हें समझने में कोई समस्या ना हो और विद्यार्थी मन लगाकर अध्ययन कर सकें।

क्या हॉस्टल, स्कूल एवं भोजन आदि की फीस मोशन प्रयास की फीस के अतिरिक्त होगी?

मोशन प्रयास में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों के लिए कोचिंग एवं स्कूल के साथ साथ ही 31 मार्च 2023 तक हॉस्टल एवं भोजन की सभी सुविधाएँ एक ही फीस में होगी। जहाँ प्रयास कोर्स फीस रूपए 160000/- जमा कराने के पश्चात विद्यार्थी पूरी तरह से मोशन एजुकेशन की जिम्मेदारी पर होगा।

मोशन प्रयास में 11वीं एवं 12वीं के हिंदी-इंग्लिश जैसे अनिवार्य विषय की तैयारी के लिए कोई सुविधा होगी?

मोशन प्रयास के अंतर्गत आवश्यकता अनुसार बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से हिंदी एवं इंग्लिश जैसे विषयों की तैयारी भी विषय विशेषज्ञों द्वारा करवाई जाएगी जिससे विद्यार्थी को बेहतर बोर्ड स्कोर में भी मदद मिल सकेगी।

मोशन प्रयास के अंतर्गत छात्र एवं छात्राओं के लिए किस तरह से हॉस्टल की सुविधा प्रदान की जाएगी?

मोशन प्रयास में छात्र एवं छात्राओं के लिए

पृथक-पृथक हॉस्टल की व्यवस्था होगी जिससे वे शांत एवं सुरक्षित वातावरण में अध्ययन कर सकें।

मोशन प्रयास के अंतर्गत अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को क्लासरूम कोचिंग के अतिरिक्त और क्या सुविधा मिलेगी?

मोशन प्रयास के अंतर्गत अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को क्लासरूम कोचिंग के अतिरिक्त मोशन लर्निंग एप की सुविधा भी दी जाएगी जिससे वे वीडियो लेक्चर के माध्यम से रिवीजन कर सकते हैं और क्लास की लाइव रिकॉर्डिंग को फिर से दोहराने के साथ साथ ही अपने स्तर के अनुसार टेस्ट देकर अपनी तैयारी को परख सकते हैं।

मोशन प्रयास में क्या केवल मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की तैयारी करावाई जाएगी। 12वीं बोर्ड की तैयारी कैसे करें?

मोशन प्रयास के अंतर्गत हर छोटे से लेकर बड़े टॉपिक को इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि विद्यार्थियों को मेडिकल अथवा इंजीनियरिंग के साथ ही 11वीं एवं 12वीं की भी तैयारी हो सके। विद्यार्थियों को इसके लिए अतिरिक्त कोचिंग लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

मोशन प्रयास में फीस जमा करने का तरीका?

मोशन प्रयास कोर्स में रजिस्ट्रेशन होने के बाद स्टूडेंट बैंक की ब्याज रहित आसान मासिक किरतों में अपनी फीस जमा कर सकता है।

मोशन प्रयास में कौन-कौन सी कक्षा का प्रस्ताव दिया जा रहा है?

मोशन प्रयास में कक्षा 11वीं अथवा 12वीं साइंस के विद्यार्थियों को मेडिकल अथवा इंजीनियरिंग प्रवेश के साथ साथ बोर्ड परीक्षा एवं 12वीं पास विद्यार्थियों को पूरी तरह से मेडिकल अथवा इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी।

कोटा कोचिंग में पहली बार...

हिन्दी माध्यम के विद्यार्थियों की कामयाबी का मोशन प्रयास

नीट एवं जेईई

कक्षा 11वीं, 12वीं एवं 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए



न्यूनतम फीस, सर्वश्रेष्ठ सुविधाएँ : मोशन प्रयास

कोचिंग+स्कूल+हॉस्टल+खाना ₹ 1,60,000

सिर्फ कोचिंग ₹ 75,000

ब्याज रहित आसान मासिक किरतों की सुविधा उपलब्ध।

* प्रतिवर्ष

Celebrating our outstanding Result in JEE Main 2022

AIR 20


100
 NTA Score
Kanishk Sharma
 Eklavya Batch


AIR 35

100
 NTA Score in Physics
Hemanshu Garg
 Eklavya Batch

AIR 100

100
 NTA Score in Physics
Vishakha Agarwal
 Eklavya Batch

AIR 29
 (PwD)

Aditya Singh Bhadoria
 Dropper Batch


AIR-149

Deevyanshu Malu
 IMMP Batch

AIR-176*

Priyanshu Singh
 Dropper Batch


AIR-208*

Nitin
 2 Year Classroom

AIR-214

Prakhar Sreegur
 Dropper Batch


AIR-222


Abhineet Singh
 2 Year Classroom

AIR-244

Priyanshu Agrawal
 Dropper Batch

AIR-272*

Girwar Patidar
 2 Year Classroom

AIR-303*

Mukhram Yadav
 2 Year Classroom


AIR-307

Jatin Singhal
 Eklavya Batch

AIR-355

Pragati Agrawal
 IMMP Batch

AIR-358

Madhav Maheshwari
 IMMP Batch

AIR-381

Bhavuk P. Sarthak
 2 Year Classroom

AIR-412

Gottupulla V. Aman
 2 Year Classroom

AIR-422*

Tanmay Soni
 Eklavya Batch

AIR-462

Jubin Singh
 IMMP Batch

AIR-497

Gaurav Rawat
 IMMP Batch

04 Students under AIR 100 **20** Students under AIR 500 **100%** Selection from IMMP & V* Batches

Students Qualified for JEE ADVANCED $\frac{4818}{6653} = 72.41\%$

* Category

Admission Open for **KOTA CLASSROOM**
 Class 5th to 12th Pass Students

JEE | NEET | NTSE | Boards | Olympiads | MyBizkid

Class 12th to 13th Moving Students
DROPPER BATCH
JEE 2023
 Starting From :
 31st Aug. & 14th Sept. 2022

NEET 2023
 Starting From :
 31st Aug. & 14th Sept. 2022

Class 10th to 11th Moving Students
NURTURE BATCH
JEE/NEET 2024
 Starting From :
 14 Sept. 2022

Get upto **100% SCHOLARSHIP** on the basis of JEE 2022

NTA Score	FEE After Scholarship
99.99+	10,000 (Kit Cost)
99.50-99.99	26,271
99-99.49	39,407
98-98.99	45,975
97-97.99	52,542
96-96.99	59,110
95-95.99	65,678
90-94.99	72,245
85-89.99	78,814
80-84.99	91,949
>79.99%	1,05,085

*IST Extra

बेस्ट ब्रेन इंस्टीट्यूट हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी

जाणिए आईआईटी के बारे में

18 अगस्त 1951 में बंगाल को खड़गपुर में देश का पहला आईआईटी खुला— इस सपने के साथ कि देश के बेहतरीन इंजीनियर तैयार होंगे। 71 साल बाद अब वास्तव में देश को आईआईटी यानि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी पर गर्व होता है कि हमारे देश में बेस्ट ब्रेन यहां से निकलते हैं। दुनिया हमारे आईआईटी का लोहा मानती है। ये संस्थान साबित कर रहा है कि वो क्रीम स्टूडेंट्स को निखारता है। इसके हजारों स्टूडेंट्स अमेरिका और दूसरे देशों में हैं, जो वहां बहुत बड़े पदों पर हैं और नित नव इनोवेशन कर रहे हैं।

आजादी के पहले से भारत में उच्च शिक्षा वाले टेक्नोलॉजी कॉलेज की जरूरत महसूस की जा रही थी। तब सर जॉर्ज सिंग के नेतृत्व में 22 स्टावीयु कमेटी बनाई गई। बाद में इस कमेटी की रचना अर्थशास्त्री, नेता और उद्योगपति नरसिंहराज रत्न के हाथों में दी गई। इनमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना के लिए अमेरिका के नैसायुटीटस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी को आधार बनाया गया। इसी आधार पर देश में आईआईटी के नए कीर्ति नाम बढ़ा कहे गए। इस कमेटी ने अपनी सिफारिश में लिखा कि देश में बनने वाले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को बार हिसाब में बांटा जाए यानी देश में बार-बार ऐसे संस्थान बनाए जाएं।

तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने बंगाल के मुख्यमंत्री बीपी राय के सुझाव पर पहले आईआईटी की नींव 1950 में खड़गपुर में रखी। फिर संभव में भी आईआईटी खड़गपुर एक प्लास कर इस पर मुद्रा लगा दी गई। तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलान अबुल कलाम आजाद ने इसका उद्घाटन किया। जब इसकी शुरुआत हुई तब इसमें 224 छात्रों का पहला बैच बनने आया। 42 टीचर थे। तब हिजलीपुर कारामार परिसर में ही कलासलरू, लैब्स और प्रशासनिक आफिस आदि बनाए गए। दस डिपार्टमेंट्स के साथ शैक्षिक कार्यक्रम की शुरुआत हुई।

जब 1956 में इसके पहले दीक्षांत समारोह में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू एक तो कहने का कह कि ये शिक्षा का संस्थान भारत का भाविष्य बनेगा। आईआईटी खड़गपुर के बाद 1958 में मुंबई, 1959 में मद्रास और कापुर आर आईआईटी कलकत्ता खोले गए। 1961 में दिल्ली की शुरुआत हुई। यह ऐसे शिक्षा संस्थान हैं, जिनमें शिक्षा हासिल करने के लिए बाह्यका मिलान राष्ट्रीय गौरव का विषय माना जाता है। केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के छात्र इन संस्थानों में पढ़ने के लिए तसतसे हैं। आईआईटी की संख्या अब देश में 23 हो चुकी है। हालांकि 05 पुराने आईआईटी को अब भी बजट में माना जाता है। इसमें खड़गपुर का कैम्पस 2100 एकड़ में फैला है और सबसे बड़ा है। वैसे

सबसे छोटा कैंपस दिल्ली आईआईटी का है, जो 325 एकड़ है। इन संस्थानों के श्रेष्ठ शैक्षिक शिक्षण स्तर के चलते पूरे देश और यहां तक कि पूरे एशिया में छात्रों के बीच एडमिशन के लिए होर मची रहती है। इन संस्थानों में स्नातक स्तर की पढ़ाई में सबसे एक सत्रक प्रवेश परीक्षा के आधार पर होता है। यह परीक्षा बहुत कठिन मानी जाती है। हालांकि आईआईटी संस्थानों की आलोचना की जाती रही है। माना जाता है कि भारत की गरीब जनता के पैसे से इसमें पढ़कर निकलने वाले पैसा कमजोर के हालात में देश छोड़कर अमेरिका सहित दूसरे देशों में चले जाते हैं, जिससे यहां की शैक्षिक संस्था का लाम भारत को ही नहीं मिल पाया है।

आईआईटी बॉम्बे ने देश को:
हालांकि देश का पहला आईआईटी परिघन बंगाल के खड़गपुर में बनाया गया था, लेकिन मुंबई के संस्थान को इसलिए भी अलग माना गया क्योंकि इसे देश की आर्थिक राजधानी में बनाया गया और इसके बाद एक के बाद एक ऐसे संस्थानों की नींव पड़ी। आईआईटी बॉम्बे से पहले वाले कई ऐसे विमर्श रहे, जिनमें बरत का रोशन किया। इनमें दिवंगत के सीईओ परम अग्रवाल, इरॉरि बेरामोरी के शिक्षण प्रशासक के ऑन-एम्प्लॉयडेंट रंजितराज तन्त्र नीले अग्रवाल, ओंहा के डे के फाउंडर भाविष्य अग्रवाल और इंडियन कॉर्पोरेशन विजय अग्रवाल समेत कई नाम शामिल हैं।

1 साल में 400 पीएचडी डिग्री देने वाला देश का पहला संस्थान:
यह पहली बार है कि किसी भारतीय शैक्षणिक संस्थान ने एक साल में 400 से अधिक पीएचडी डिग्री दी है। 2021-22 में, आईआईटी बॉम्बे को रिसर्च और डिप्लोमेट के लिए 329.08 करोड़ रुपये का बजट से फंड मिला था। पहली बार पर्वत स्थित कॉलेज ने 4.49 पीएचडी डिग्री प्रदान की है। वहीं पिछले साल 378 और 2019 में 301

स्टूडेंट्स को पीएचडी अवॉर्ड हुई थी। पिछले 10 वर्षों में पीएचडी छात्रों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। 2011-12 में 1, 895 पीएचडी उम्मीदवारों को डिग्री दी गई थी। 2020-21 में संख्या 3, 534 को छू गई और वर्तमान गिनती लगभग 3, 727 है।
जब विदेश में भी बजेटा आईआईटी का डंका, 7 देशों में खुले आईआईटी के ग्लोबल कैंपस:
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-आईआईटी दुनिया भर में अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जाना जाता है। बहुत जल्द अब आईआईटी का ग्लोबल विस्तार होगा। आईआईटी को दुनिया तक पहुंचाने के लिए केंद्र द्वारा बनाई गई समिति ने विदेश में स्थित भारतीय दूतावासों से परामर्श के बाद 7 देशों को चिन्हित किया है जहां आईआईटी के ग्लोबल कैंपस खोले जाएंगे। ये सात देश हैं—ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, मिच, साऊदी अरब, कतर, मलेशिया और थाईलैंड हैं। कमेटी ने यह रिपोर्ट 26 देशों में स्थित भारतीय मिशनों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर तैयार किया है। इसके लिए विदेश मंत्रालय ने 2 फरवरी और 28 मार्च को इन मिशनों के अधिकारियों के साथ वृद्ध अंतर्देशीय की व्यवस्था की थी। इसमें इकोनॉमिक डिप्लोमेसी सेक्टर के अधिकारियों ने भी भाग लिया था। ब्रिटेन में भारतीय हाई कमिशन से प्राप्त इनपुट में कहा गया है कि आईआईटी ग्लोबल कैंपस में स्टावीयु के लिए ब्रिटेन से 6 ठेक प्रस्ताव मिले हैं। ये प्रस्ताव यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम, किंग्स कॉलेज लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सटर, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ केंब्रिज और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की तरफ से आए हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आईआईटी दिल्ली के लिए संयुक्त अरब अमीरात, साऊदी अरब, कतर और मलेशिया परसदीया विकल्प है। रिपोर्ट के अनुसार— निच 2022-23 से आईआईटी कैंपस के लिए सलाहगत है। उसने कहा है कि अगर फिनांसल फिजिकल कैंपस संभव नहीं हो पा



आईआईटी का उद्योग करना होगा।

आईआईटी बॉम्बे के बारे में जानिए
आईआईटी का उद्योग करना होगा।
भरे हुए विद्यार्थी की जांच करके इसकी पुष्टि करें।
बजट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 17

Umeed **Rank** Ki Ho Ya **Selection** Ki, JEET NISCHIT HAI!

MOST PROMISING RANKS
PRODUCED BY MOTION FACULTIES

NATION'S BEST SELECTION
PERCENTAGE (%) RATIO

NEET / AIIMS

AIR-1 TO 10
25 TIMES

AIR-11 TO 25
37 TIMES

AIR-26 TO 50
43 TIMES

AIR-51 TO 100
78 TIMES

JEE MAIN+ADVANCED

AIR-1 TO 10
8 TIMES

AIR-11 TO 25
6 TIMES

AIR-26 TO 50
19 TIMES

AIR-51 TO 100
31 TIMES



NITIN VIJAY (NV Sir)

Founder & CEO

STUDENT QUALIFIED IN NEET

2021 3276 / 3411
= 93.12%

2020 2663 / 2843
= 93.66%

2019 2041 / 2212
= 92.27%

STUDENT QUALIFIED IN JEE ADVANCED

2021 1256 / 2994
= 41.95%

2020 994 / 2538
= 39.16%

2019 769 / 2105
= 36.53%

STUDENT QUALIFIED IN JEE MAIN

2022 4818 / 6653
= 72.41%

2021 2994 / 4087
= 73.25%

2020 2538 / 3554
= 71.44%